



RIS-2024-25/49

Date: 10/ 09 /24

Dear Parents,

Kindly make a note that Mid-term exam for grade I and 2 will be conducted from  
24<sup>th</sup> September to 28<sup>th</sup> September 2024.

Assessments of PE, Art, Music and ICT will be conducted during the regular period.

From 20<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup> September students will go home at 1:30 PM.

Kindly note that the lunch break from 24<sup>th</sup> Sept to 29<sup>th</sup> Sept will be from 12:15 PM to 12:45 PM

On 28<sup>th</sup> September Saturday the break will be at 11:45 AM

The details of the assessment are as follows.

Mid Term Exam Grade - I					
Sr.no	Name of the subject	Syllabus	Date of exam	Marks	Time
1	Marathi	Speaking - १)आमचे गणपती बाप्पा २) माझा परिवार Reading – मात्रारहित शब्द , वाक्य Writing – स्वर ( अ ते ओ ) व्यंजन - ( क ते र ) मात्रारहित शब्द आणि वाक्य	24/9/24	20	10:00 AM to 11:30 AM
2	Hindi	1.कविता- चंदा मामा दूर के 2.कविता-दादा- दादी लेखन- Writing 3.गिनती -१ से १० - अक्षरों तथा अंकों में 4.बारहखड़ी 5.चित्रवर्णन 6.क्रिया शब्द 7.रंगों के नाम 8.अ से अः तक की मात्राओं के शब्द और वाक्य लेखन सुनना- Listening 1.कहानी	25/9/24	20	10:00 AM to 11:30 AM



		वाचन- reading 1.पठित गद्यांश			
3	English	<b>Lesson 1-</b> Manu and his family, family words, about myself. <b>Lesson 2-</b> Friends in the park. <b>Rhyme-</b> Mary had a little lamb. <b>Grammar topic:</b> use of articles, use of am, are, Use of This/ that, Opposites, revision of blends, pronoun, use of these /those, writing about my school.	26/9/24	20	10:00 AM to 11:30 AM
4	Maths	<b>Chapter 1: Numbers up to 20-</b> Arranging number smallest to biggest, biggest to smallest, building numbers 11 to 20 with the help of tens and ones, showing the number on abacus. <b>Chapter 2: Addition up to 20 -</b> addition using number strips, Vertical and horizontal addition, Add by counting forward, Word problems Properties of addition, Combination of number addition. <b>Chapter 3: Subtraction up to 20-</b> Subtraction using number line, subtraction by counting backward, word problem, properties of subtraction.	27/9/24	20	10:00 AM to 11:30 AM
5	EVS	<b>Lesson 1: About me -</b> Introduction to self, my favourites. <b>Lesson no. 2-My Body-</b> Parts of our body, Uses of body parts, Sense organs and its uses. <b>Lesson no.3- Looking after my body-</b> Healthy habits in day to day routine. <b>Lesson no.4 - Clothes we wear-</b> Need of clothes, Different clothes as per seasons [summer, winter, rainy] <b>Lesson no.5- Food we eat-</b> Kinds of food, Good food habits. <b>Lesson no. 6- Safety rules-</b> Safety at home, school, playground and road.	28/9/24	20	10:00 AM to 11:30 AM

*Chhola*  
Principal